

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 07 नवंबर 2022

### प्रश्न -1

किस राज्य में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने "तराई एलिफेंट रिजर्व" की स्थापना को मंजूरी दी?

- A) आंध्र प्रदेश
- B) मध्य प्रदेश
- C) तमिलनाडु
- D) उत्तर प्रदेश

**सही उत्तर: D**

केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoFECC) ने तराई एलिफेंट रिजर्व (TER) को अपनी मंजूरी दे दी है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश को जल्द ही एक नया एलिफेंट रिजर्व मिलने वाला है।

### प्रश्न -2

एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में हीट वेव के कारण भारत को सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत की आय हानि हुई?

- A) 6.2%
- B) 5.4%
- C) 4.4%
- D) 3.8%

**सही उत्तर: B**

क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी की नई रिपोर्ट के अनुसार, भारत को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 5.4% आय का नुकसान हुआ, जो 2021 में G20 देशों में सबसे अधिक है।

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 07 नवंबर 2022

### प्रश्न -3

\_\_\_\_\_ ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला इंटर-सिटी लॉजिस्टिक्स प्रदाता बन गया।

- A) एजिस लॉजिस्टिक्स
- B) ब्लू डार्ट एक्सप्रेस
- C) शिपरॉकेट
- D) TCI एक्सप्रेस

**सही उत्तर: C**

शिपरॉकेट ने कहा कि यह ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) नेटवर्क में प्लग इन करने वाला पहला इंटर-सिटी लॉजिस्टिक्स प्रदाता बन गया है।

### प्रश्न -4

निम्नलिखित में से कौन 15 सदस्यीय सलाहकार समिति की अध्यक्षता करेगा जिसे IRDAI द्वारा 2 साल की अवधि के लिए गठित किया गया है?

- A) देवी प्रसाद शेटी
- B) नयन शाह
- C) नीरजा कपूर
- D) राकेश जोशी

**सही उत्तर: D**

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) द्वारा गठित यह 15 सदस्यीय समिति दो साल की अवधि के लिए संचालित होगी, जिसकी अध्यक्षता IRDAI के सदस्य श्री राकेश जोशी करेंगे।

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 07 नवंबर 2022

### प्रश्न -5

सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म श्रेणी में किस फिल्म ने सैंटर्न अवार्ड्स 2022 जीता?

- A) जय भीम
- B) RRR
- C) पोन्नियिन सेलवन: पार्ट 1
- D) KGF: चैप्टर 2

**सही उत्तर: B**

लॉस एंजिल्स, कैलिफोर्निया, USA में, एस.एस. राजामौली की पीरियड फिल्म RRR को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म श्रेणी में प्रतिष्ठित सैंटर्न अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया।

### प्रश्न -6

निम्नलिखित में से किस अभिनेता को बोरोप्लस आयुर्वेदिक एंटीसेप्टिक क्रीम के ब्रांड एंबेसडर के रूप में नियुक्त किया गया था?

- A) आमिर खान
- B) अक्षय कुमार
- C) अमिताभ बच्चन
- D) राजकुमार राव

**सही उत्तर: B**

पर्सनल और हेल्थकेयर प्रोडक्ट्स निर्माता इमामी ने बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार को अपने ब्रांड बोरोप्लस आयुर्वेदिक एंटीसेप्टिक क्रीम के लिए नए ब्रांड एंबेसडर के रूप में साइन किया है।

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 07 नवंबर 2022

### प्रश्न -7

भारतीय वायु सेना (IAF) के साथ किस देश ने 7वां द्विपक्षीय अभ्यास 'गरुड़ VII-2022' आयोजित किया?

- A) ऑस्ट्रेलिया
- B) इंडोनेशिया
- C) जापान
- D) फ्रांस

**सही उत्तर: D**

भारतीय वायु सेना (IAF) और फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल (FASF) 26 अक्टूबर से 12 नवंबर 2022 तक जोधपुर वायु सेना स्टेशन पर 'गरुड़ VII' नामक एक द्विपक्षीय अभ्यास में भाग ले रहे हैं।

### प्रश्न -8

निम्नलिखित में से किस राज्य में 'बेस्तु वर्ष उत्सव' मनाया गया?

- A) महाराष्ट्र
- B) मध्य प्रदेश
- C) गुजरात
- D) गोवा

**सही उत्तर: C**

गुजराती नव वर्ष 'बेस्तु वर्ष उत्सव' पूरे गुजरात राज्य में अपार हर्ष, उल्लास और उत्साह के साथ मनाया जाता है।

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 07 नवंबर 2022

### प्रश्न -9

विशेष गंभीर बीमारी कवर की पेशकश करने के लिए, निम्नलिखित में से किस बीमा कंपनी ने मेडिक्स के साथ भागीदारी की है?

- A) टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस
- B) बिडला सन लाइफ इंश्योरेंस
- C) भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस
- D) बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस

**सही उत्तर: A**

टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने टाटा AIA ग्राहकों को गंभीर बीमारियों से संबंधित उनके चिकित्सा उपचार का प्रबंधन के लिए पहुंच प्रदान करने के लिए मेडिक्स के साथ भागीदारी की है।

### प्रश्न -10

विश्व स्ट्रोक दिवस कब मनाया गया?

- A) 30 अक्टूबर
- B) 29 अक्टूबर
- C) 27 अक्टूबर
- D) 26 अक्टूबर

**सही उत्तर: B**

गंभीर प्रकृति और स्ट्रोक की उच्च दर पर जोर देने के लिए हर साल 29 अक्टूबर को विश्व स्ट्रोक दिवस मनाया जाता है।